



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 22, 1982/पौष 1, 1904
No. 554] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 22, 1982/PAUSHA 1, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1982

का.आ. 857(अ)/18 कक/आई.डी.आर.ए./82 :—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 852(अ) 18 कक/आई.डी.आर.ए./77, तारीख 23 दिसम्बर, 1977, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण पाँच वर्ष की अवधि के लिए, 22 दिसम्बर, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश की अवधि को छः महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए, 22 जून, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बना रहना चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 22 जून, 1983 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 2/44/77-सी.यू.एस.]

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)
ORDER

New Delhi, the 22nd December, 1982

S.O. 857(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 852(E)/18AA/IDRA/77, dated the 23rd December, 1977 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as Messrs National Rubber Manufacturers Limited, Calcutta, has been taken over for a period of five years upto and inclusive of the 22nd December, 1982;

And, whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of 22nd June, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provision of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 22nd June, 1983.

[F. No. 2(44)/77-Cus.]

आदेश

का.आ. 858(अ)/18-एफ.बी./आई.डी.आर.ए./82 :—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 190(अ)/एफ.बी./आई.डी.आर.ए./78, तारीख 21 मार्च, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्यम (विकास और

विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-बख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो बैंको और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित हैं) जिनका मसर्स नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम या स्थासित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे उपक्रम या कम्पनी को लागू हो, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निगमबद्ध रहेगा और उक्त तरीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकारी, विशेषाधिकार, बाध्यताएँ और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अवधि 22 दिसम्बर, 1982 तक और बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 22 जून, 1983 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की ओर अवधि के लिए बढ़ाई जानी चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-बख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 22 जून, 1983 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की ओर अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[फा. सं. 2(44)/77-सी. यू. एस.]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

ORDER

S.O. 858(E)/18FB/IDRA/82.—Whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 190(E)/18FB/IDRA/78, dated the 21st March, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards standing orders of other instruments in force immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs National Rubber Manufacturers Limited, Calcutta, or the Company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And, whereas, the duration of the said Order was further extended upto 22nd December, 1982;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order be extended for a further period upto and inclusive of 22nd June, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby extend the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 22nd June, 1983.

[F. No. 2(44)/77-CUS]

A. P. SARAWAN, Jt. Secy.